



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1946 (श0)

(सं0 पटना 877) पटना, मंगलवार, 3 सितम्बर 2024

सं0 भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0-1-56/2024-5466(भ)
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

19 जुलाई 2024

- विषय:- ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये)मात्र की लागत पर राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।
2. राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों का निर्माण किया जाना है। जिसके अन्तर्गत राजेन्द्र भवन में लगभग छः सौ क्षमता के आधुनिक सभागार तथा सुसज्जित डायनिंग हॉल का निर्माण प्रावधानित है। राज्यपाल सचिवालय में महामहिम राज्यपाल के लिए कार्यालय कक्ष, मिटिंग हॉल, प्रधान सचिव के लिए कार्यालय कक्ष, दस कमरों के अतिथिगृह में डायनिंग हॉल, डोरमेटरी का निर्माण प्रावधानित है। साथ ही इन सभी निर्माण कार्य में अग्निशमन कार्य, दो लिफ्ट, फर्नीचर कार्य, ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता हेतु अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का प्रावधान, बागवानी कार्य, विद्युत सब-स्टेशन, डी0जी0 सेट, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु यू0पी0एस0 सिस्टम, भी0आर0भी0/भी0आर0एफ0 ए0सी0 सिस्टम, सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम, सी0सी0टी0भी0, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, आई0पी0 आधारित आई0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम, एल0ई0डी0 के साथ स्ट्रीट लाइटिंग, एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 संयंत्र, आधुनिक बायोमेट्रिक सिस्टम, बैगेज स्कैनर, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल बुम बैरियर, सेन्सर आधारित कार पार्किंग सिस्टम, इमरजेन्सी लाईट एवं एल्युमिनेटेड साईनेज एवं मोटराईज्ड स्टील गेट आदि प्रावधानित हैं।
3. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये)मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 18.06.2024 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक-4629(भ) अनु0, दिनांक-19.06.2024 द्वारा प्रेषित है। राजभवन, पटना के परिसर में राजेन्द्र भवन (बी0+जी0+1) (कुल क्षेत्रफल 109696.05 वर्गफीट); राज्यपाल सचिवालय (बी0+जी0+2) (कुल

क्षेत्रफल 44939.79 वर्गफीट) एवं अतिथिगृह (जी0+1) (कुल क्षेत्रफल 17071.39 वर्गफीट) का निर्माण कार्य होना है। राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹65.00 करोड़ तथा 2025-26 में 64.69 करोड़ का व्यय किया जायेगा तथा योजना कार्यान्वयन की समय सीमा 18 माह होगी।

4. इस योजना का व्यय "मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0101-विपत्र कोड-03-4059010510101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
5. राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों के निर्माण योजना पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-12.07.2024 की बैठक में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

आदेश:-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 877-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>